

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 11, 1969/पौष 21, 1890

No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 11, 1969/PAUSA 21, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January 1969

S.O. 170.—In pursuance of the paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Election Commission hereby makes the following amendment in its notification No. 56/69-II (S.O. 89), dated the 4th January, 1969, namely:—

In Table 3, against the entry "1. Andhra Pradesh" for the entries "(4) Spade and (5) Two leaves", the entries "(4) Spade, (5) Two leaves and (6) Elephant" shall be substituted.

[No 56/69-III.]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

